

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 272]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 अप्रैल 2010—वैशाख 9, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 6ए-52-2009-1-पांच(56).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए.-6ए-52-2009-1-पांच-(34), दिनांक 26 दिसम्बर 2009 में, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अंक और शब्द “30 अप्रैल, 2010” के स्थान पर, अंक और शब्द “30 जून, 2010” स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 6-ए-52-2009-1-पांच(56).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. क्रमांक एफ. 6-ए-52-2009-1-पांच(56), दिनांक 29 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 29th April 2010

No. F-A-52-2009-1-V(56).— In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby makes the following amendment in this department's notification No. FA-6A-52-2009-1-V-(34), dated 26th December 2009, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, for the figures and word “30th April, 2010”, the figures and word “30th June, 2010” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
A. P. SHRIVASTAVA, Principal Secy.